

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

. प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 262] नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 1984/ज्यैष्ठ 14, 1906
No. 262] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 1984/JYAISTHA 14, 1906

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

पटसन आयुक्त का कार्यालय

कलकत्ता, 4 जून, 1984

अधिसूचना

का. आ. 413 (अ).—पटसन (आज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1981 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एस. पी. मल्लिक, पटसन आयुक्त एतद्वारा बी. ट्रिबल्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की साइज $44\frac{1}{2}'' \times 26\frac{1}{2}''$ साम्य वजन सिला किनारा $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ सिला $2\frac{1}{4}$ पण्ड प्रति बोरा 6×8 , 3—नीले शृङ्ख सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा. मा. संस्थान भा. मा. (2560—1985 अद्यतन संशोधित) के अनुरूप है, अधिकता वहनिर्माणों द्वारा कीमत

803.05 रुपये प्रति एक सौ बोरा नियत करते हैं। इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय जून, 1984 महीने के दौरान किया जाएगा।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई कीमत में उत्पादन शुल्क और विक्रय कर सम्मिलित नहीं, जिसका संभाव्य क्रोडा की वास्तविक खर्च के अनुसार बहिर्निर्माणी कीमत के अतिरिक्त करना होगा।

[फाइल नं. 8/3/84-जूट]

एस. पी. मल्लिक, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

Office of the Jute Commissioner

Calcutta, the 4th June, 1984

NOTIFICATION

S.O. 413(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, I, S. P. Malik, Jute Commissioner hereby fix Rs. 803.05 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute textiles) of the size $44\frac{1}{2}'' \times 26\frac{1}{2}''$ Hd. W.I.P. $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ Hd. 2½ lbs. per bag, 6×8, 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS : 2566—1965 as amended upto-date) shall be purchased or sold during the month of June, 1984.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8/3/84-Jute]

S. P. MALLIK, Jute Commissioner